

अपना COVID-19 बूस्टर शॉट प्राप्त करें



COVID-19 बूस्टर शॉट क्या है?

COVID-19 बूस्टर शॉट वैक्सीन की एक अतिरिक्त खुराक होती है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाती है और आपको COVID-19 के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा देती है।

इसे बूस्टर शॉट कहाँ से मिल सकता है?

कम्युनिटी वैक्सीनेशन लाइन मेन के लोगों की आपके आस-पास COVID-19 वैक्सीन तुरंत खोजने में मदद करती है।

1-888-445-4111 पर कॉल करें

सोमवार-शुक्रवार, सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक

अनुवाद सेवाओं के लिए, नंबर पर कॉल करें और अपनी इच्छित भाषा बताएँ।

मुझे अपना बूस्टर शॉट कब मिल सकता है?

Pfizer-BioNTech या Moderna COVID-19 वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्तियों के लिए, निम्नलिखित समूह अपनी प्रारंभिक सीरीज़ के 6 महीने या उससे अधिक समय बाद एक बूस्टर शॉट लगवाने के लिए पात्र हैं:

- 65 साल और उससे अधिक उम्र के लोग
- 18+ आयु वाले जो दीर्घकालिक देखभाल व्यवस्थाओं में रहते हैं
- 18+ आयु वाले जो चिकित्सा स्थितियों से प्रभावित हैं
- 18+ आयु वाले जो उच्च जोखिम वाली व्यवस्थाओं में काम करते हैं या रहते हैं

18 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को अपनी J&J/Janssen COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने के कम से कम 2 महीने बाद बूस्टर शॉट्स लगवाने की सिफारिश की जाती है।

क्या परिवहन उपलब्ध है?

हाँ, यदि परिवहन की आवश्यकता है तो MANA को कॉल, टेक्स्ट, या ईमेल करें:

207-387-0749 | car@mana-maine.org

या 1-855-608-5172 (ModivCare) पर कॉल करें

क्या मैं विभिन्न वैक्सीनों को मिला सकता हूँ?

हाँ, कुछ लोगों की मूल रूप से प्राप्त होने वाली वैक्सीन के प्रति कोई प्राथमिकता हो सकती है और अन्य लोग, एक अलग बूस्टर प्राप्त करने को प्राथमिकता दे सकते हैं। CDC की सिफारिशें अब बूस्टर शॉट के लिए इस प्रकार की मिश्रित खुराक की अनुमति देती हैं।

क्या मुझे एक ही समय में COVID-19 बूस्टर शॉट और फ़्लू शॉट मिल सकता है?

हाँ, फ़्लू और COVID-19 दोनों की वैक्सीनें एक ही मुलाक़ात में प्रदान की जा सकती हैं।

क्या बूस्टर शॉट निःशुल्क है? क्या मुझे स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता है?

हाँ, COVID-19 बूस्टर शॉट्स निःशुल्क हैं नहीं, स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता नहीं है।

आपसे आपकी आप्रावासिय स्थिती के बारे में नहीं पूछा जाएगा।